

November 15, 2025

To,
The Manager,
Bombay Stock Exchange Limited,
Corporate Relationship Department,
Phirozee Jeejeebhay Tower,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001
BSE Scrip Code:533260

To,
The Manager,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, C/1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai-400 051,
NSE Symbol: CPCAP

Respected Sir/Madam,

Sub: Submission of photocopies of newspaper clippings pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Publication pertaining to Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2025.

Pursuant to Regulation 47(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisement published in English Newspaper "The Financial Express" & Hindi Newspaper "Jansatta" with respect to Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2025.

kindly take the same on record.

Thanking you,

For CP Capital Limited
(Formerly known as Career Point Limited)

(CS Manmohan Pareek)
Company Secretary & Compliance Officer
(ACS34858)

Enclosed: As above

CP Capital Limited

(Formerly known as Career Point Limited)

Registered office: Village Tangori, Banur, Mohali, Punjab 140601

Corporate Office: CP Tower-1, Road No-1, IPIA, Kota, Rajasthan-324005

Phone: +91 744 3559282; Website: www.cpil.in, E-mail: investors@cpil.in CIN: L64990PB2000PLC054497

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2025						
Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year ended	
	(30/09/2025)	(30/06/2025)	(30/09/2024)	(30/09/2025)	(30/09/2024)	(31/03/2025)
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	1485.49	1488.98	1453.30	2974.47	3150.44	5982.70
Net Profit from Ordinary Activities before tax and Minority Interest	1332.08	1393.78	1237.70	2725.86	2936.72	5177.59
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	1016.36	1078.01	843.21	2094.37	2083.67	3811.71
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (EPS)						
Basic & Diluted EPS before Extraordinary items	5.59	5.93	4.58	11.51	11.45	20.95
Basic & Diluted EPS after Extraordinary items	5.59	5.93	4.58	11.51	11.45	20.95

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2025						
Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year ended	
	(30/09/2025)	(30/06/2025)	(30/09/2024)	(30/09/2025)	(30/09/2024)	(31/03/2025)
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from Operations (net)	1414.15	1401.31	1723.36	2815.46	3335.63	6328.02
Net Profit from Ordinary Activities before tax and Minority Interest	1091.03	1040.15	1480.27	2131.18	3037.31	5279.63
Net Profit for the period after tax and Minority Interest	819.72	786.93	1119.20	1606.65	2253.34	4066.47
Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29	1819.29
Reserves excluding Revaluation Reserve (NIL) as per balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	-
Earnings Per Share (EPS)						
Basic & Diluted EPS before Extraordinary items	4.50	4.33	6.15	8.83	12.39	22.35
Basic & Diluted EPS after Extraordinary items	4.50	4.33	6.15	8.83	12.39	22.35

- Notes:**
- The financial results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2025 have been limited reviewed.
 - The above results, duly reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 14th November, 2025
 - The above is an extract of the detailed format of both Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th September, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website i.e. www.cpcapital.in and Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also can be accessed by scanning the QR Code provided below.



BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS
FOR CP CAPITAL LIMITED
(Erstwhile CAREER POINT LIMITED)
PRAMOD KUMAR MAHESHWARI
Chairman, Managing Director and CEO
DIN-00185711

केनरा बैंक Canara Bank		आरित वसुती प्रबंधन शाखा आगरा	
भारत सरकार का उपभोग	A Government of India Undertaking	सिंडिकेट सिंडिकेट	

कच्चा नोटिस (अवल सम्पत्ति के लिए)

यद्यपि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टियों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्त के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टियों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टर को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं नियमों के उपनियम 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके समुच्च अंकित तिथि को कर लिया गया है। ऋणी का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्राक्धान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्वारा ऋणी/ गारन्टर को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/ व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/ व्यवहार केनरा बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज व अन्य व्यय आदि हेतु बैंक की नीचे खाते के समुच्च उल्लिखित किया गया है के अन्धधोना होगा। अधिनियम की नियम 13 के उप नियम (8) के प्राक्धान की ओर ऋणी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वह उपलब्ध समय में अपनी सम्पत्ति को छोड़ा लें।

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस दिनांक कच्चा नोटिस तिथि	बकाया राशि (रु.)
1.	इंडियन प्लाइवुड (ऋणी), प्रोपराइटर नाजिम सैफी, कॉमर्शियल दुकान, आवासीय मकान नंबर 514, खेत नंबर 151 नया गांव, धमेड़ा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203001. नाजिम सैफी पुत्र जाकिर हुसैन (ऋणी) धमेड़ा रोड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203001. सईदा पत्नी जाकिर हुसैन (जमानतकर्ता), 284 / 25, धमेड़ा आड्डा, नई बस्ती, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001.	एक आवासीय संपत्ति (खेत नं. 326 का भाग) नगरपालिका सीमा के अंतर्गत, वार्ड नं. 32, नया गांव, परगना बरान, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में जोकि सईदा पत्नी जाकिर हुसैन के नाम पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल – 102.41 वर्ग मीटर, चौहद्दी: उत्तर: विलायत का घर, दक्षिण: बांके देकेदार का प्लॉट, पूर्व: रास्ता 3.04 मीटर, पश्चिम: रास्ता 3.04 मीटर। एक आवासीय संपत्ति (खेत नं. 326 का भाग) नगरपालिका सीमा के अंतर्गत, वार्ड नं. 32, नया गांव, परगना बरान, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में जोकि सईदा पत्नी जाकिर हुसैन के नाम पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल – 102.41 वर्ग मीटर, चौहद्दी: उत्तर: विलायत का घर, दक्षिण: बांके देकेदार का प्लॉट, पूर्व: रास्ता 3.04 मीटर, पश्चिम: रास्ता 3.04 मीटर।	24.07.2025 12.11.2025	रु. 23,12,951.14 31.10.2025 तक + ब्याज व अन्य खर्च।
2.	मनीष टेक्स्टाइल इंडस्ट्री (ऋणी) प्रोपराइटर सतीश गौतम, 138 हसनगढ़ पोस्ट खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001. सतीश गौतम पुत्र फकीर चंद गौतम (प्रोपराइटर), 138 हसनगढ़ पोस्ट खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश– 203001. संजु पत्नी सतीश गौतम (जमानतकर्ता), 138 हसनगढ़ पोस्ट खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001.	एक आवासीय प्लॉट जिसका क्षेत्रफल– 168.00 वर्ग मीटर, भूमि नं. 237, ग्राम हसनगढ़, परगना खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश जोकि संजु पत्नी सतीश गौतम के नाम पर स्थित है। चौहद्दी: उत्तर: गाली 7 कीट चौड़ी, दक्षिण: मकान महेंद्र, पूर्व: 20 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम: प्लॉट और मकान फकीरचंद गौतम।	24.07.2025 12.11.2025	रु. 52,12,040.19 31.10.2025 तक + ब्याज व अन्य खर्च।
3.	एस पी कम्यूटर्स (ऋणी), प्रोपराइटर सुधीर कुमार, निरांज संत निवास ललित राज एक्वेव, मार्केट मोहल्ला, ककराला सिटी स्टेशन खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203001. सुधीर कुमार पुत्र जग पाल सिंह (प्रोपराइटर), बुद विहार कॉलोनी, डाकर मोड़, खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश – 203001. प्रकाशी देवी पत्नी जग पाल सिंह (जमानतकर्ता) मकान नंबर 83, जी नया गंज–2, खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203001. मनोज देवी पत्नी सुरेंद्र पाल सिंह, 104, मुन्ना जाटान–2, खुर्जा, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश – 203155.	एक मकान खसरा नं. 1575 एम का भाग, मोहल्ला बहार चुंगी, कस्बा खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में प्रकाशी देवी पत्नी जग पाल सिंह और मनोज देवी पत्नी सुरेंद्र पाल सिंह के नाम पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल – 168.00 वर्ग मीटर। चौहद्दी: उत्तर: सतेंद्र का मकान, दक्षिण: खडक सिंह का मकान, पूर्व: 10 फीट चौड़ा रोड, पश्चिम: विनोद का मकान।	24.07.2025 12.11.2025	रु. 57,16,226.94 31.10.2025 तक + ब्याज व अन्य खर्च।
4.	अयान सिरिमिक इंडस्ट्रीज (ऋणी) प्रोपराइटर/स्वामी शकील अहमद, मुरारी नगर, नेहरूपुर चुंगी, शंकर होटल के पीछे, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. – 203131. शजदा पत्नी स्वामी शकील अहमद (स्वामी शकील अहमद का कानूनी उत्तराधिकारी) ग्राम पीरजादगान, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. 203131. वसीम अहमद पुत्र स्वामी शकील अहमद (स्वामी शकील अहमद का कानूनी उत्तराधिकारी) ग्राम पीरजादगान, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. – 203131. शबाना पुत्री स्वामी शकील अहमद (स्वामी शकील अहमद की कानूनी उत्तराधिकारी) ग्राम पीरजादगान, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. 203131. कासिम पुत्र स्वामी शकील अहमद (स्वामी शकील अहमद का कानूनी उत्तराधिकारी) ग्राम पीरजादगान, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. – 203131. साइमा पुत्री स्वामी शकील अहमद (स्वामी शकील अहमद की कानूनी उत्तराधिकारी) ग्राम पीरजादगान, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. – 203131. मोहसीन पुत्र स्वामी शकील अहमद (स्वामी शकील अहमद का कानूनी उत्तराधिकारी) ग्राम पीरजादगान, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. – 203131. जीशन कुरेशी पुत्र स्वामी शकील अहमद (स्वामी शकील अहमद का कानूनी उत्तराधिकारी) ग्राम पीरजादगान, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. – 203131. अयान कुरेशी पुत्र स्वामी शकील अहमद (स्वामी शकील अहमद का कानूनी उत्तराधिकारी) ग्राम पीरजादगान, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. – 203131. कासिम पुत्र शकील मोहम्मद (गारंटर) मकान नंबर 46, मुगधपुरा, खुर्जा, बुलंदशहर, उ.प्र. – 203131.	भूमि एवं भवन गाटा नं. 171 / 2 एवं 172 / 1, कस्बा नेहरू पुर, आउटर चुंगी, गणेश सिरिमिक इंडस्ट्रीज के पास, जी.टी. रोड, परगना एवं तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में जिसका क्षेत्रफल 950.00 वर्ग मीटर, जोकि मेसरस अयान सिरिमिक इंडस्ट्रीज, प्रोपराइटर श्री शकील अहमद उर्फ मोहम्मद शकील पुत्र श्री हाफिज अब्दुल आलिम के नाम से स्थित है। चौहद्दी: उत्तर: खेत श्री हरिकिशन, दक्षिण: खेत श्री शेर सिंह, पूर्व: खेत श्री इंद्र, पश्चिम: रास्ता 8.3" चौड़ा।	06.08.2025 12.11.2025	रु. 55,28,268.99 31.10.2025 तक + ब्याज व अन्य खर्च।

दिनांक: 15.11.2025 प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक



भारतीय स्टेट बैंक

भारत सरकार का उपभोग

A Government of India Undertaking

सम्पत्ति की ई-नीलामी

29.11.2025

ई एम डी की अंतिम दिनांक और समय

27.11.2025, 05:00 PM

ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण

A/C No. 209272434

E-Auction Name of Beneficiary: Canara Bank, IFSC Code: CNRB0018650

ई-नीलामी बिड की सूचना

के तहत अचल संपत्तियां सुदृष्टा हित के (पुनर्वित्त नियम 2002)

ब्रेजीव कार्यालय: रूकई विंग ईटार, वित्तीय तह, चामुंडी गेट के पास दिल्ली ट्रेड, हापुड – 245101, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, मोबाईल: 9412771771

ई-नीलामी बिड की सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अवल सम्पत्ति की बिडों हेतु ई-नीलामी बिडों की सूचना एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदारों (तथा जमानतकर्ताओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्राप्ति नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति जिसका रवानामक कच्चा नोटिस के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तत्सम्बन्धित कर्जदार एवं गारंटरों को संबुद्ध रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांक को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के अंश वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर मुगलान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का मूगलान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के एतद्वारा के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के साधने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रचार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर सौदादानम दर पर भविष्य का ब्याज, आकर्षिक खर्च, लागत, प्रभार एत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्राक्धानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.

खाते/कर्जदार / गारंटर का नाम एवं पता

बंधक/प्राप्ति सम्पत्ति का विवरण

मांग सूचना की तारीख कच्चा की तारीख

बकाया राशि

1

मेसरस पार्थ प्रोप्री. श्री नवीन सोरीत पुत्र बृज पाल) होडल खर्च रोड, गांव गरीटा, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121108 श्री नवीन सोरीत, पुत्र श्री बृज पाल (मालिक मेसरस पार्थ प्रोप्री) खाता नं. 280 / 305, आयतन नं. 170, किला नं. 26(2–4), 2 कनाल 4 मरला, 1/4 हिस्से की सीमा तक अर्थात 0 कनाल 11 मरला, तिहाव पट्टी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, गांव गरीटा, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121106 श्री बृजपाल पुत्र श्री नखी सिंह खेत/ खाता नं. 280 / 305, रेक्ट नं. 170, किला नं. 26(2–4), 2 कनाल 4 मरला, 1/4 भाग अर्थात 0 कनाल 11 मरला, तिहाव पट्टी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, गांव गरीटा, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121106

आवासीय संपत्ति का साम्यिक बंधक खेत/ खाता संख्या 280/305, रेक्ट संख्या 170, किला संख्या 26(2–4) कुल क्षेत्रफल 2 कनाल 4 मरला, 1/4 भाग अर्थात 11 मरला, तिहाव पट्टी होडल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121106 में स्थित।


रु. 68,76,798 /– (रुपये अठसठ लाख छिहर हजार सात सौ अठानवे मात्र) दिनांक 27.08.2025 तक, तथा उक्त राशि पर भविष्य में देय ब्याज, अनुबंधित दरों के अनुसार, एवं समस्त सहायक व्यय, लागत तथा अन्य शुल्क आदि सहित।

27.08.2025
13.11.2025

रु. 68,76,798 /– (रुपये अठसठ लाख छिहर हजार सात सौ अठानवे मात्र) दिनांक 27.08.2025 तक, तथा उक्त राशि पर भविष्य में देय ब्याज, अनुबंधित दरों के अनुसार, एवं समस्त सहायक व्यय, लागत तथा अन्य शुल्क आदि सहित।

दिनांक : 13.11.2025 स्थान : होडल (पलवल)

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक



केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपभोग

A Government of India Undertaking

सम्पत्ति की ई-नीलामी

29.11.2025

ई एम डी की अंतिम दिनांक और समय

27.11.2025, 05:00 PM

ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण

A/C No. 209272434

E-Auction Name of Beneficiary: Canara Bank, IFSC Code: CNRB0018650

ई-नीलामी बिड की सूचना

के तहत अचल संपत्तियां सुदृष्टा हित के (पुनर्वित्त नियम 2002)

ब्रेजीव कार्यालय: रूकई विंग ईटार, वित्तीय तह, चामुंडी गेट के पास दिल्ली ट्रेड, हापुड – 245101, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, मोबाईल: 9412771771

ई-नीलामी बिड की सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अवल सम्पत्ति की बिडों हेतु ई-नीलामी बिडों की सूचना एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदारों (तथा जमानतकर्ताओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्राप्ति नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति जिसका रवानामक कच्चा नोटिस के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तत्सम्बन्धित कर्जदार एवं गारंटरों को संबुद्ध रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांक को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के अंश वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर मुगलान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का मूगलान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के एतद्वारा के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के साधने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रचार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर सौदादानम दर पर भविष्य का ब्याज, आकर्षिक खर्च, लागत, प्रभार एत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्राक्धानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.

खाते/कर्जदार / गारंटर का नाम एवं पता

बंधक/प्राप्ति सम्पत्ति का विवरण

मांग सूचना की तारीख कच्चा की तारीख

बकाया राशि

1

मेसरस पार्थ प्रोप्री. श्री नवीन सोरीत पुत्र बृज पाल) होडल खर्च रोड, गांव गरीटा, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121108 श्री नवीन सोरीत, पुत्र श्री बृज पाल (मालिक मेसरस पार्थ प्रोप्री) खाता नं. 280 / 305, आयतन नं. 170, किला नं. 26(2–4), 2 कनाल 4 मरला, 1/4 हिस्से की सीमा तक अर्थात 0 कनाल 11 मरला, तिहाव पट्टी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, गांव गरीटा, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121106 श्री बृजपाल पुत्र श्री नखी सिंह खेत/ खाता नं. 280 / 305, रेक्ट नं. 170, किला नं. 26(2–4), 2 कनाल 4 मरला, 1/4 भाग अर्थात 0 कनाल 11 मरला, तिहाव पट्टी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, गांव गरीटा, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121106

आवासीय संपत्ति का साम्यिक बंधक खेत/ खाता संख्या 280/305, रेक्ट संख्या 170, किला संख्या 26(2–4) कुल क्षेत्रफल 2 कनाल 4 मरला, 1/4 भाग अर्थात 11 मरला, तिहाव पट्टी होडल, तहसील होडल, जिला पलवल, हरियाणा–121106 में स्थित।


रु. 68,76,798 /– (रुपये अठसठ लाख छिहर हजार सात सौ अठानवे मात्र) दिनांक 27.08.2025 तक, तथा उक्त राशि पर भविष्य में देय ब्याज, अनुबंधित दरों के अनुसार, एवं समस्त सहायक व्यय, लागत तथा अन्य शुल्क आदि सहित।

27.08.2025
13.11.2025

रु. 68,76,798 /– (रुपये अठसठ लाख छिहर हजार सात सौ अठानवे मात्र) दिनांक 27.08.2025 तक, तथा उक्त राशि पर भविष्य में देय ब्याज, अनुबंधित दरों के अनुसार, एवं समस्त सहायक व्यय, लागत तथा अन्य शुल्क आदि सहित।

दिनांक : 13.11.2025 स्थान : होडल (पलवल)

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक



केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपभोग

A Government of India Undertaking

सम्पत्ति की ई-नीलामी

29.11.2025

ई एम डी की अंतिम दिनांक और समय

27.11.2025, 05:00 PM

ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण

A/C No. 209272434

E-Auction Name of Beneficiary: Canara Bank, IFSC Code: CNRB0018650

ई-नीलामी बिड की सूचना

के तहत अचल संपत्तियां सुदृष्टा हित के (पुनर्वित्त नियम 2002)

ब्रेजीव कार्यालय: रूकई विंग ईटार, वित्तीय तह, चामुंडी गेट के पास दिल्ली ट्रेड, हापुड – 245101, मुख्य प्रबंधक, प्राधिकृत अधिकारी, मोबाईल: 9412771771

ई-नीलामी बिड की सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्विनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अवल सम्पत्ति की बिडों हेतु ई-नीलामी बिडों की सूचना एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदारों (तथा जमानतकर्ताओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति लेनदार के पास बंधक/प्राप्ति नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति जिसका रवानामक कच्चा नोटिस के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तत्सम्बन्धित कर्जदार एवं गारंटरों को संबुद्ध रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांक को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के अंश वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर मुगलान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का मूगलान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के एतद्वारा के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के साधने अंकित के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, के प्रचार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर सौदादानम दर पर भविष्य का ब्याज, आकर्षिक खर्च, लागत, प्रभार एत्यादि सहित के अधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्राक्धानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.

खाते/ऋणी/ गारन्टर के नाम

बंधक सम्पत्ति का विवरण

ऋण का प्रकार

मांग नोटिस की तिथि

मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि

1

शाखा: मिड कोर्पोरेट, कर्नाट पैलेस, नई दिल्ली 1. मेसरस शिवोम दयाल पुनर्जीव हरिद्वार प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हस्तके डायरेक्टर श्री दिव्य आहूजा और श्रीमती वैनु आनन्द आहूजा, जिसका रजिस्टर्ड कार्यालय तृतीय ए/221, रचना प्लेसद वैशाली 4/ए आशियाना अपार्टमेंट, गांधीबाबा, उ.प्र. 2. श्रीमती वैनु आनन्द आहूजा पत्नी श्री आशीष आहूजा, आवासीय पता: 4/32, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008, 3. श्री दिव्य आहूजा पुत्र श्री आशीष आहूजा, आवासीय पता: 4/32 पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008, 4. श्री आशीष आहूजा पुत्र श्री राज कुमार आहूजा, आवासीय पता: 4/32, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008

चल – 1. दृष्टिके चल सम्पत्ति स्टोक प्रांत और वनमान परिसंपत्तियों (वर्तमान और भविष्य का) शीर्षक धारक का नाम मेसरस शिवोम दयाल पुनर्जीव हरिद्वार प्राइवेट लिमिटेड 2. दृष्टिके चल सम्पत्ति प्लान्ट और मशीनरी (टर्म लोन और टर्म लोन II) शीर्षक धारक का नाम मेसरस शिवोम दयाल पुनर्जीव हरिद्वार प्राइवेट लिमिटेड 3. साम्यिक बंधक सम्पत्ति कर्कटी और भूमि खाता नं. 30 खसरा नं. 75/2 और अन्य मौजा ग्राम खेड़ा वार्ड नं. 9, आजाद नगर, नगर पालिका परिषद, लखनार, परगना, तहसील लखनार, जिला हरिद्वार क्षेत्रफल माप 0.41 हेक्टेयर जो राय बहादुर नारायण सिंह शूजर मिल्स लिमिटेड में शामिल (RBNSMML) लखनार, जिला हरिद्वार उत्तर